

“ हिंदी में है चेतना, हिंदी में हैं प्राण ।

हिंदी में है देश का, स्वाभिमान और सम्मान ॥”

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। यह हृदय की भाषा है जो जन - जन को आकर्षित करती है । प्रतिवर्ष देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है । प्रत्येक वर्ष के समान अपने प्रयास को जारी रखते हुए बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया , जिसमें प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों ने भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया ।

इस विशेष अवसर पर पहली तथा दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने ' हास्य कविता वाचन ' में उत्साहपूर्वक भाग लिया । विभिन्न छात्र एवं छात्राओं ने रंग-बिरंगी वेशभूषा के साथ अत्यंत मजेदार तथा हास्यजनक कविताओं की लयबद्ध प्रस्तुति देते हुए अपनी प्रतिभा का मंचन किया



मेरा नाम सब्जी जोकर.....  
अविघ्नीता रॉय ( पहली ब )



सुनो सुनो भई सुनो सुनो.....  
अन्निका कुमार ( दूसरी ब )

हिंदी दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्तर पर कक्षा तीन के अंतर्गत दिनांक 06 सितंबर से 8 सितंबर तक दोहा वाचन गतिविधि करवाई गई । जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और कबीरदास और रहीमदास जी के दोहों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया



शगुन गुप्ता



प्रज्वल सैनी



आयुष भार्गव

विद्यार्थियों द्वारा दोहा प्रस्तुतीकरण में उनका आत्मविश्वास एवं और लयबद्धता सराहनीय थी। हिंदी के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए कक्षा चौथी तथा पाँचवीं के छात्रों ने प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई कहानी का मंचन किया । छात्रों ने लेखक द्वारा लिखी गई कहानी को वर्तमान समय से जोड़ते हुए उसे नवीन रूप प्रदान कर अपनी रचनात्मकता व कल्पनाशीलता का परिचय दिया । सभी छात्रों ने इस गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेकर हिंदी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया ।



‘हार की जीत’ कहानी मंचन का नया अंदाज़

अविरल अग्रवाल - ‘चौथी स’

माध्यमिक कक्षाओं में ओजस्वी कविता-पाठ करवाया गया जिसमें सभी छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने उचित लय और ताल के साथ सुप्रसिद्ध रचनाकारों की कविताओं को गाकर समां बाँध दिया। कुछ होनहारों ने तो स्वरचित कविता-पाठ करके सबका मन जीत लिया।



‘पूस की रात’ कहानी के नए सृजक

आर्ना गुप्ता - ‘पाँचवी ब’



वाह! क्या बात है !

तनिष्ठा शर्मा- आठवीं - ‘ब’



मेरी भी तो सुनिए !

खुशी राजन - छठी-‘अ’

इसी अवसर पर 'देश निखरेगा जब हिंदी भाषा को मिलेगी उपेक्षा से मुक्ति' विषय पर कक्षा नवीं से बारहवीं तक के छात्रों ने चर्चा-परिचर्चा करते हुए अपने-अपने मन की बात कही। मन की बात कहते हुए बच्चों ने हिंदी विषय का अधिकाधिक प्रयोग करने व रोजमर्रा के जीवन में हिंदी में बातचीत करते हुए न हिचकिचाने तथा न शर्माने एवं पर्यटकों के समक्ष भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने का सझाव दिया।



### मन की बात

#### इशिका गर्ग-नवीं 'द'

इस अवसर पर सोमवार 13 सितंबर 2021 को विद्यालय की ओर से गूगल मीट के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कवि व गीतकार श्री सोम ठाकुर जी मुख्य अतिथि थे। साक्षात्कार 12:00 बजे शुरू हुआ जिसमें उन्होंने अपने काव्य पाठ से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध कविता- 'चंदन और अबीर' का भी वाचन किया। इसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें वेदिका श्रीवास्तव, नताशा चौहान और गर्वित ने श्री सोम ठाकुर जी से उनके बचपन व रचनाओं के बारे में प्रश्न किए। हिंदी वर्ग की अध्यापिकाओं ने भी उनसे बातचीत की। श्रीमती उमेश कुमारी व श्रीमती दीपा चतुर्वेदी ने उनसे उनके लोकगीत के बारे में तथा उनके प्रेरणास्रोत के बारे में प्रश्न किए हैं। प्राइमरी वर्ग की मुख्य अध्यापिका श्रीमती विनया पुजारी जी ने भी उनसे आधुनिक कवियों के बारे में प्रश्न किया। साक्षात्कार के दौरान श्री सोम ठाकुर जी के साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर अजीत वर्धन जी तथा डॉक्टर रंजन जी भी मौजूद थे जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया और हमें उनकी रचनाओं को सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। श्री सोम ठाकुर जी ने छात्रों के जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर देते हुए भविष्य के कर्णधार 'युवा पीढ़ी' को मार्गदर्शन भी दिया तथा सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शभकामनाएँ भी दी।



हमारे प्रेरणा स्रोत

हिंदी विभाग

बाल भारती पब्लिक स्कूल, नौएडा